



सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



Help us to
help you

भारत वापस लौटने वाले यात्री



यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो तुरन्त एयरलाइन कर्मचारी को बताएं



यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो तुरन्त एयरलाइन कर्मचारी से मारक मांगें और उसे पहनकर रखें



परिवार वालों और सह-यात्रियों के निकट संपर्क में न आएं



प्लेन से उतरते समय एयरलाइन कर्मचारी के दिशानिर्देशों को अपनाएं



एयरपोर्ट पर अपनी यात्राक्रम की जानकारी और सेल्फ-रिपोर्टिंग फॉर्म एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी को दे



यदि आप पिछले 14 दिनों में किसी कोरोना वायरस (COVID-19) प्रभावित देशों* से लौटे हैं और खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरन्त हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और निर्देशों का पालन करें

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से प्रभावित देशों की सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.mohfw.gov.in

सुरक्षित रहें!

नोवल कोरोना वायरस से बचे रहें!

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के
24X7 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

1075 या +91-11-23978046

ncov2019@gmail.com

www.mohfw.gov.in
www.mygov.in, www.pmindia.gov.in

YouTube [mohfwindia](https://www.youtube.com/mohfwindia)

Twitter [@MoHFW_INDIA](https://twitter.com/MoHFW_INDIA)

Website <http://ncdc.gov.in/> / [@director_NCDC](https://twitter.com/director_NCDC)